

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

((₹ करोड़ में))

	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	वास्तविक 2023-24	सं. अनु. 2024-25	ब.अनु. 2025-26
राजस्व प्राप्तियां	1374203	1435233	1552916	1684059	1633919	2169906	2383207	2729036	3087960	3420409
क. कर राजस्व (राज्यों का निवल हिस्सा) (अनुबंध 2 में ब्यौरा)	1101372	1242488	1317211	1356902	1426287	1804794	2097786	2327251	2556960	2837409
ख. कर-मिन्न राजस्व (अनुबंध 2 में ब्यौरा)	272831	192745	235705	327157	207632	365112	285421	401785	531000	583000
पूँजी प्राप्तियां	609866	702649	763518	997301	1992149	1775753	1811573	1713616	1488412	1642452
1. अंतरिक ऋण-बाजार										
उधार (निवल)	349657	410256	423267	473986	1146741	891530	1105836	1177754	1074514	1153834
1.01 सकल बाजार उधार	624670	647158	599590	874822	1527366	1324276	1524066	1643290	1547491	1732000
क. सामान्य/नवीन	582000	588000	571000	710000	1260116	968382	1421000	1543000	1400697	1482000
ख. स्विचिंग	41625	59158	28590	164822	157042	196894	103066	100290	146794	250000
ग. जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में कमी रहने के कारण राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को निरंतर ऋण प्रदान करने के लिए ली गयी उधारी	...	...	...	...	110208	159000	...	...	...	...
घ. अन्य	1045	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	275013	236902	176324	400835	380626	432746	418230	465536	472977	578166
क. सामान्य/अनुसूची	174846	137272	148265	236032	227208	264335	312740	440646	361422	395666
ख. स्विचिंग	40510	58075	28059	164803	153418	168411	105490	102994	146995	250000
ग. वापस खरीद	59657	41555	...	...	...	...	...	...	88164	...
घ. अन्य@	...	...	...	...	...	...	...	-78104	-123604	-67500
2. विदेशी सहायता (निवल)	17996	7931	5519	8682	70180	36147	37123	55121	31992	23490
2.01 सकल विदेशी उधार	44191	48517	50609	63180	123938	86665	93731	120429	107712	111013
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	26195	26685	30739	33891	34715	35782	39929	47317	55685	65388
2.03 निवलित व्यय	...	13901	14351	20607	19042	14735	16679	17991	20034	22135
3. अल्पकालिक ऋण	5550	44949	6897	150103	203205	77438	112009	53205	-120000	...
4. पीओएलआईएफ(नेट) के अंतर्गत बची राशि की प्रतिभूति के एवज में जारी विशेष प्रतिभूति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.01 प्राप्तियां	...	...	...	...	4000	7000	9894	...	...	...
4.02 घटाइए-अदायगी	...	...	...	...	4000	7000	9894	...	...	...
5. ऋण की वसूली *	17630	15633	18052	18316	19729	24732	26161	26646	26000	29000
6. अल्प बचत (निवल)	67435	102628	125000	240000	483733	551269	395860	451399	411871	343382
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	17745	15799	16059	11635	18514	10317	5089	5059	5000	5000
8. विशेष जमा (निवल)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. विविध पूंजीगत प्राप्ति	47723	100045	94727	50304	37897	14638	46035	33122	33000	47000
10. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	86130	5407	73997	44273	12151	169677	83460	-88689	26034	40745
जोड़-प्राप्तियां	1984069	2137882	2316434	2681360	3626068	3945659	4194780	4442652	4576371	5062861
राजस्व लेख पर घाटा	316381	443602	454484	666545	1449602	1031021	1069926	765216	610098	523846
प्राथमिक घाटा	54904	62112	66770	321580	1138423	779021	809238	590772	431587	292598
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	-8895	4092	1321	4970	-7188	2543	-1622	794	140115	2484
राजकोषीय घाटा	535618	591064	649418	933651	1818291	1584520	1737755	1654644	1569527	1568936
*अर्थात्पाय अग्रिमों की वसूली घटाकर	23000	50000	12000	...	10000	...	10000	12105	50000	50000
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	202	201	95	275	104	94	112	119	150	150
# इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(क) पूंजी व्यय से प्रतिकंटा	2181	543	9793	1020	8936	4270	1000	6922	1133	61000
ओमिटेड आईएमएफ को जारी	...	...	...	...	110208	159000	...	...	...	...
(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को ऋण	...	...	...	...	...	29500	...	...	...	...
(ग) भारत की आकस्मिकता निधि के धन को बढ़ावा देना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	...	80000	106000	65443	20000	...	...	...	...	...
(ङ) सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य बैंकिंग निकायों की रिस्कैपिटलाइजेशन बाण्ड का जारी किया जाना	...	...	4500	10405	...	...	...	...	...	...
(च) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	140	120	110	225	90	118	...	...	...	...

@2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में कमी के कारण राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रदान किए गए बारंबार ऋण की अदायगी के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति से अतिरिक्त वसूली के माध्यम से पुनर्भुगतान।